

Printed from

नवभारत टाइम्स

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

एनएच 91 को चौड़ा करने का काम जल्द होगा शुरू

14 Dec 2010, 0400 hrs IST

- हॉट मिक्स प्लांट भी खर्जा एरिया में लगा दिया गया है

इंद्रपाल कौशिक ॥ बुलंदशहर

पीपीपी मॉडल एनएच 91 का चौड़ीकरण किया जाएगा। काम अब जल्द शुरू होने वाला है। एनएच 91 के चौड़ीकरण के लिए कंपनी ने हॉट मिक्स प्लांट भी खर्जा एरिया में लगा दिया है। इस काम पर 1256 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब चौड़ीकरण कार्य 1750 करोड़ में निपटने के संकेत हैं। कंपनी को गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, बल्कि कंपनी अपनी तरफ से एनएच 91 तैयार करके खुद टोल टैक्स के माध्यम से 2032 तक लोगों से पैसा वसूलेगी।

एनएच 91 पीएनसीआईएल यानी प्रदीप-नवीन-चक्रेश इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करेगी। यह परियोजना बिल्ड एंड ऑपरेट, बीएओ यानी बनाओ और खुद लागत वसूलो के मॉडल पर बनाकर एनएच 91 को तैयार करवाया जा रहा है। चौड़ीकरण का काम पूरा होते ही जनपद विकास के नाम की नई इबारत लिखेगा। कंपनी सूत्रों के अनुसार हॉट मिक्स प्लांट लगा दिया है। जरूरी उपकरण भी स्थापित कर दिए हैं। 16 जून 2010 को राष्ट्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच-91 के चौड़ीकरण एवं बाईपास निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी। चौड़ीकरण में ली जा रही जमीन का भौतिक कब्जे का काम लगभग पूरा हो गया है। राजमार्ग मंत्रालय ने पीएनसीआईएल को चौड़ीकरण का कार्य सौंपा है। लोकनिर्माण विभाग के नोडल अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि एनएच-91 परियोजना का काम पीएनसीआईएल कंपनी को सौंप दिया है। 3 साल पहले इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने 1256 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने 1750 करोड़ एनएच-91 पर खर्च करके तैयार होने की बात कही है। कंपनी एनएच-91 का कार्य अपनी तरफ से पूरा करेगी और 2032 तक टोल टैक्स के माध्यम से पैसा वसूल करेगी। इन शर्तों पर कंपनी ने काम करने को सरकार से करार कर लिया है।

इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।

इस आर्टिकल को ट्वीट करें।

देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)Copyright © 2010 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768